



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2012/पौष 5, 1934

No. 279]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2012/PAUSA 5, 1934

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 दिसम्बर, 2012

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2012-13/26/28919.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, फॉर्चुन टॉवर, सयाजीगंज, वडोदरा-390005 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 4 जनवरी, 2013 को प्रारंभ होने वाली और 3 जनवरी, 2014 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित अथवा इसके पश्चात् यथाविहित या अधिरोपित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करता है।

- एक्सचेंज प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 का और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के तारीख 7 अक्टूबर, 2009 के परिपत्र सं. एमआरडी/डीएसए/एसई/सीआईआर-12/09 का अनुपालन करने के पश्चात् ही प्रतिभूतियों में व्यापार प्रारंभ कर सकता है।

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा।

राजीव कुमार अग्रवाल, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/69-जैड बी/12/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th December, 2012

No. LAD-NRO/GN/2012-13/26/28919.— The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Vadodara Stock Exchange Limited having its registered office at 3rd Floor, Fortune Tower, Sayajigunj, Vadodara-390005 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 4th day of January, 2013 and ending on 3rd day of January, 2014 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated hereinbelow or as prescribed or imposed hereafter.

- The exchange can commence trading in securities only after complying with Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 and Securities and Exchange Board of India Circular No. MRD/DSA/SE/Cir-12/09 dated October 7, 2009.
- The exchange shall comply with such other conditions prescribed by SEBI from time-to-time.

RAJEEV KUMAR AGARWAL, Whole Time Member
[ADVT-III/4/69-ZB/12/Exty.]